



# उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ।

## Syllabus

**Lecturer (PGT) - Commerce**  
**(Subject Code- 07)**

---

### **Section-A**

**Accounts** - Financial Accounting - Principles of Double accounting system, final accounts with adjustment, partnership accounts, Company accounts - issue of shares and Debentures, Forfeiture Reissue of shares, redemption of debentures, depreciation and its methods.

**Cost Accounting** - meaning and objectives, element of cost, methods of cost accounting – unit/output costing, Tender price, contract cost, process costing.

**Taxation** – Important definitions - Agriculture Income, assessee, previous year, assessment year, residential status and tax liability.

**Management Accounting** – Meaning, importance, scope, function and objectives. Difference with financial accounting, principles of business forecasting, Management Reporting, Ratio analysis, break even analysis.

### **Section-B**

**Business Organization and management** – Features, scope, types and forms of Business organization, Industry, domestic and foreign trade.

**Features and functions of management** – Schools of management thought - contribution of F W Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, functions of management – planning, staffing, motivation, coordination and control.

### **Section-C**

**Principals of economics and statistical methods** – Nature and scope of economics, relationship of trade with economics, indifference curve analysis, laws of returns, production function, population theory, average and marginal cost, trade cycle national income.

**Statistical method** – correlation and regression, quality correlation, analysis of time series, index numbers, frequency distribution – normal, Binomial and Poisson. India statistics – specially with reference to population, agriculture and industrial data.



# उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।

पाठ्यक्रम

## प्रवक्ता (PGT) – वाणिज्य (विषय कोड-07)

### खण्ड- अ

**एकाउन्ट्स :** वित्तीय लेखांकन – दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धान्त, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अन्तिम लेखे तैयार करना, साझेदारी खाते, कम्पनी लेखे, अंशों एवं ऋणपत्रों का निर्गमन, अंशहरण एवं ऋणपत्रों का शोधन, हास एवं विधियाँ।

**लागत लेखांकन :** लागत लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, लागत लेखांकन की विधियाँ – इकाई लागत लेखांकन, निविदा मूल, ठेका लागत, प्रक्रिया लागत विधि।

**कराधान –** महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा – कृषि आय, करदाता, गतवर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान एवं कर दायित्व।

**प्रबन्धकीय लेखांकन –** अर्थ, महत्व, क्षेत्र, कार्य एवं उद्देश्य, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय लेखांकन में अन्तर, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धान्त, प्रबन्धकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण।

### खण्ड-ब

**व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध :** व्यावसायिक संगठन की विशेषताएँ, क्षेत्र, प्रकार एवं स्वरूप, उद्योग, देशी एवं विदेशी व्यापार।

**प्रबन्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र –** प्रबन्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र, प्रबन्ध की विचार धारायें, प्रबन्ध विचार में प्रमुख विचारकों के योगदानों का विश्लेषण – एफ० डब्लू० टेलर, हेनरी फेओल, एल्टन मायों, प्रबन्ध के कार्य – नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, समन्वय एवं नियंत्रण।

### खण्ड-स

**अर्थशास्त्र के सिद्धान्त एवं सांख्यिकीय रीतियाँ :** अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का सम्बन्ध, तटस्थता वक विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन प्रकार्य, जनसंख्या सिद्धान्त, औसत और सीमान्त लागत, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय।

**सांख्यिकीय रीतियाँ –** सह-सम्बन्ध एवं प्रतीगमन, गुणात्मक सहसम्बन्ध, कालमाला का विश्लेषण, निर्देशांक।

**आवृत्ति वितरण का विश्लेषण –** बारम्बारता बंटन – सामान्य बंटन, द्विपद एवं प्यॉयसन।

**भारतीय सांख्यिकी –** विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि एवं औद्योगिक समंक।